



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940  
No. 67] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

## भारत निर्वाचन आयोग

### आदेश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

**संदर्भ:** वर्ष 2014 में आयोजित आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 11-अरमुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री राजाराम डोडोल्ला के विरुद्ध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत की गई अपील।

**आ.अ. 74(अ).—यतः,** पूर्ववर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान 11-अरमुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्री राजाराम डोडोल्ला को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहने के लिए आयोग की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के जरिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हित कर दिया गया था; और

**यतः,** आयोग की निरर्हता अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की प्राप्ति के उपरांत, श्री राजाराम डोडोल्ला ने आयोग की पूर्वोक्त अधिसूचना के द्वारा अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए संगत दस्तावेजों के साथ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक अपील दिनांक 08 नवम्बर, 2018 को प्रस्तुत की है; और

**यतः,** अपीलीय प्राधिकारी के नोटिस में लाए गए सभी सारवान् तथ्यों पर विचार करने के उपरांत उनका यह विचार है कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो विधि द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में उनके द्वारा असफल रहने की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किए गए निवेदन के आलोक में, अपीलीय प्राधिकारी ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए आयोग की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अंतर्गत उन पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि को एतद्वारा कम करने का निर्णय लिया है।

**अतः, अब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतद्वारा यह निर्णय लिया जाता है** कि भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के तहत, धारा 10क के अंतर्गत, श्री राजाराम डोडोल्ला पर अधिरोपित निरर्हता, इस आदेश

की तारीख से हट जाएगी। परिणामस्वरूप, आयोग की दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 76/तेल-वि.स./2014 में क्रम संख्या 01 पर प्रदर्शित, श्री राजाराम डोडोल्ला का नाम इस आदेश की तारीख से उक्त आदेश से विलोपित कर दिया गया माना जाएगा।

[सं. 76/ आ.प्र.-वि.स./11/2014]

आदेश से,

सत्येन्द्र कुमार रुडोला, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

New Delhi, the 16th November, 2018

**In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act of Shri Rajaram Dodolla, a contesting candidate from 11-Armour Legislative Assembly Constituency at the General Election to Legislative Assembly of Andhra Pradesh, 2014.**

**O.N. 74(E).—Whereas;** Shri Rajaram Dodolla, a contesting candidate from 11-Armour Legislative Assembly Constituency in the State of Telangana, during General Election to the Legislative Assembly of erstwhile Andhra Pradesh, 2014, had been disqualified under Section-10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for failure to lodge the account of his election expenses in the manner required by law, vide Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 13<sup>th</sup> April, 2017; and

**Whereas;** after receipt of the Commission's disqualification Notification dated 13<sup>th</sup> April, 2017, Shri Rajaram Dodolla has presented an appeal dated 8<sup>th</sup> November, 2018, under Section-11 of the aforesaid Act, along with the relevant documents, for removal of disqualification imposed upon him vide Commission's aforesaid notification, and

**Whereas,** after considering all the material facts brought to the notice, the Appellate Authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, in view of the submission made by the appellant, the Appellate Authority, after taking a lenient view, has decided to reduce the period of disqualification imposed on him, under section 10A of the R.P. Act, 1951 vide Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 13<sup>th</sup> April, 2017.

Now; therefore, **it is hereby decided by the Competent Authority,** that the disqualification imposed on Shri Rajaram Dodolla, Under Section 10A, vide Election Commission of India's Notification dated 13<sup>th</sup> April, 2017, shall stand removed from the date of this order. Consequently, the name of Shri Rajaram Dodolla appearing at Serial No. 01 in the Commission's Notification No. 76/TEL-LA/2014, dated 13<sup>th</sup> April, 2017, shall be deemed to have been deleted from the said Notification, with effect from date of this order.

[No. 76/AP-LA/11/2014]

By Order,

S. K. RUDOLA, Principal Secy.